



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2008 /फाल्गुन 13, 1929

No. 282]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2008/PHALGUNA 13, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2008

का.आ. 417(अ).— केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), तमिलनाडु (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, तमिलनाडु कहा गया है) का गठन करती है जिसमें तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :-

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. श्री सी थंगाराजू, आई ए एस (सेवानिवृत्त)
सं० 4/19 तीसरा मेन रोड
इंदिरा नगर, चैन्नई- 600 020 | अध्यक्ष,
परियोजना प्रबंधक |
| 2. श्री जी० रंगास्वामी
सं० 38/83, माधवराम हाई रोड
(दक्षिण), पेराम्बूर, चैन्नई-600011 | सदस्य,
पर्यावरण गुणवत्ता |
| 3. निदेशक, पर्यावरण
तमिलनाडु सरकार | सदस्य
सचिव |

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगी।

3. प्राधिकरण, तमिलनाडु ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है।

4. प्राधिकरण, तमिलनाडु इस आदेश में तमिलनाडु सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की रिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी।

5. तमिलनाडु राज्य सरकार अभिकरण को प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संचारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास सुविधा, परिवहन, और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता तमिलनाडु सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, तमिलनाडु का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | डा० मुथु मास्तिअप्पन, टी४/१,
कावेरी स्ट्रीट, कलाक्षेत्र
कॉलोनी, बंरात नगर, चैन्नई-९० | अध्यक्ष,
परियोजना प्रबंधन,
पर्यावरणीय
इंजीनियरिंग
पारिस्थितिकी एवं ऊर्जा
प्रबंधन |
| 2 | डा० के० दनाशेखरन,
निदेशक, सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल स्टडीज
अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई-६०००२५ | सदस्य, पर्यावरणीय
इंजीनियरिंग, प्लानिंग
एवं आर्किटेक्चर |
| 3 | श्री पी० एम नटराजन, प्लॉट नं० १५५,
८वां क्रॉस स्ट्रीट, अरुलानंदनगर,
तिंजावुर -६१३००७ | सदस्य,
हाइड्रो ज्योलॉजिकल
मैपिंग |
| 4 | डा० एस शिवानेशन, निदेशक
सेंटर फॉर एंट्रीप्रिन्सरशिप डेवलपमेंट,
अन्ना विश्वविद्यालय चैन्नई- ६०००२५ | सदस्य, पर्यावरणीय
रसायन |
| 5 | डा० एम पी चॉकालिंगम, रोवाल्लर
ग्राम, कुलीपराइ, पो०, तिरुमायम
तालुका, पदुक्कोटई जिला ६२२४०२ | सदस्य,
सिविल इंजीनियरिंग |
| 6 | प्रो० टी० रवामीनाथन, केमिकल इंजीनियरिंग
विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई-
६०००३६ | सदस्य, पर्यावरणीय
प्रबंधन, जोखिम
मूल्यांकन, पर्यावरणीय
नीति, पर्यावरण
अर्थशास्त्र |
| 7 | श्री वी० रामदारा, आईएएस (सेवानिवृत्त)
सरकार के पूर्व सचिव, सूचना और पर्यटन
विभाग, प्लॉट नं०-७, (पुरानी सं० ७५) १५वां | राचिव
परियोजना प्रबंधन
विधि |

8	डा० धुलासी बिरुंदा वरदाराजन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विभाग, स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, मदुरई कामरज, विश्वविद्यालय, मदुरई-652021	सदस्य पर्यावरणीय अर्थशास्त्र
9	डा० के श्रीनिवास, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, खनन इंजीनियरिंग विभाग, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई- 600025	सदस्य खनन विशेषज्ञ
10	डा० ए जी मुरुगेषण , रीडर, मनोमणियम सुंदर विश्वविद्यालय, अल्वरकुरुचि- 627412	सदस्य इंडस्ट्रियल टैकिसकोलीजी
11	डा० वी० सुंदराराज, सी-18, क्वींस पार्क, प्लॉट नं० 77 एवं 78, गोवरी वक्कम, ताम्बरम, वेल्लाचेरी रोड, चैन्नई- 601302	सदस्य, सेक्टरल एक्सपर्ट इनफिशरीज, मेरीन बायलोजी एवं एक्वाक्ल्चर
12	प्रो० के मुथुचेलियन, निदेशक, जैवविविधता एवं वन अध्ययन केन्द्र, मदुरई कामराजर विश्वविद्यालय, मदुरई -625021	सदस्य जीवन विज्ञान
13	डा० एच मोहम्मद कासिम, प्रधानाचार्य, साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट इंचार्ज, मद्रास रिसर्च सेंटर ऑफ सीएमएफआर इंस्टीट्यूट, 75 शांथम हाई रोड, आर ए पुरम चैन्नई-600 028	सदस्य, मेरीन बायलोजी
14	सदस्य सचिव, तमिलनाडु, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सचिव

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, तमिलनाडु का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुर्नगठन किया जाएगा।

8. एस ई ए सी, तमिलनाडु ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी है।

9. एस ई ए सी, तमिलनाडु सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी।, अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

10. तमिलनाडु राज्य सरकार, अभिकरण को एस ई ए सी, तमिलनाडु के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचति करेगा और यह सभी वित्तीय और संधारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2008

S.O. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Tamil Nadu (hereinafter referred to as the Authority, Tamil Nadu) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Tamil Nadu as under:

- | | | |
|----|---|---------------------------------|
| 1. | Sh. C. Thangaraju, IAS (Retd.)
No. 4/19, 3 rd Main Road
Indira Nagar, Chennai- 600 020 | Chairman,
Project Management |
| 2. | Sh. G. Rengasamy
No. 38/83, Madhavaram High Road
(South), Perambur, Chennai- 600 011, | Member,
Environment Quality |
| 3. | Director of Environment
Government of Tamil Nadu. | Member Secretary |

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Tamil Nadu shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Tamil Nadu shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Tamil Nadu in this order.

5. The State Government of Tamil Nadu shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance / Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Tamil Nadu as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Tamil Nadu, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Tamil Nadu (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Dr. Muthiah Mariappan, T4/1,
Cauvery Street, Kalakshetra
Colony, Besant Nagar, Chennai- 90 | Chairman,
Project Management, Environmental
Engineering, Ecology &
Energy Management |
| 2. | Dr. K. Thanasekaran, Director,
Centre for Environmental Studies,
Anna University, Chennai-600025 | Member, Environmental
Engineering, Planning &
Architecture |
| 3. | Sh. P.M. Natarajan, Flat No. 155,
8 th Cross Street, Arulanandanagar, | Member, Hydro Geological
Mapping |

- | | | |
|-----|---|--|
| 4 | Dr. S. Sivanesan, Director, Centre for Entrepreneurship Development, Anna University, Chennai- 600 025 | Member, Environmental Chemistry |
| 5 | Dr. M.P. Chockalingam, Sevalur Village, Kulipirai (P.O), Tirumayam Taluk, Pudukkottai Dist. - 622 402 | Member, Civil Engineering |
| 6 | Prof. T. Swaminathan, Dept. of Chemical Engineering, Indian Institute of Technology, Chennai- 600 036 | Member, Environmental Management, Risk Assessment, Environmental Policy, Environmental Economics |
| 7 | Sh. V. Ramdoss, IAS (Retd.), Former Secretary to Government, Information and Tourism Department, Plot No. 7, (Old No. 75), 15 th Street, Q Block, Anna Nagar, Chennai- 600 040. | Member, Project Management, Law |
| 8. | Dr. Dhulasi Birundha Varadarajan, Professor & Head, Dept. of Environmental Economics, School of Economics, Madurai Kamaraj University, Madurai- 625 021 | Member, Environmental Economics |
| 9. | Dr. K. Srinivas, Professor & Head, Department of Mining Engineering Anna University, Chennai- 600025 | Member, Expert in Mining |
| 10. | Dr. A.G. Murugesan, Reader, Manomaniam Sundarnar University, Alwarkurichi- 627412 | Member, Industrial Toxicology |
| 11. | Dr. V. Sundararaj, C-18, Queens Park, Plot No. 77 & 78, Gowrivakkam, Tambaram, Vellachery Road, Chennai- 601 302. | Member, Sectoral Expert in Fisheries, Marine Biology & Aquaculture |
| 12. | Prof. K. Muthuchelian, Director Centre for Biodiversity & Forest Studies, Madurai Kamraj University, Madurai- 625021 | Member, Life Sciences |
| 13. | Dr. H. Mohamad Kasim, Principal Scientist & Scientist in Charge, Madras Research Centre of CMFR Institute, 75, Shanthom High Road, R.A.Puram, Chennai- 600 028 | Member, Marine Biology |
| 14. | Member Secretary, Tamil Nadu Nadu Pollution Control Board. | Secretary |

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Tamil Nadu shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Tamil Nadu shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Tamil Nadu shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Tamil Nadu shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Tamil Nadu and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance / Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Tamil Nadu as per State rules.

[No. J-11013/97/2007-IA.II(1).]
NALINI BHAT, Scientist 'G'